



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1116 राँची, बुधवार,

12 दिसम्बर, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
आदेश

5 नवम्बर, 2018

आदेश संख्या-5/आरोप-1-141/2014 का.- 8292-- श्री राम नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-563/03) को देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में सी०बी०आई० के विशेष कोर्ट में दिनांक 15 जनवरी, 2018 को सरेडर करने के उपरांत उन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-151(HRMS), दिनांक 16 फ़रवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 15 जनवरी, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया । साथ ही, न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् इन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री राम द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को अपना योगदान समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया ।

3. अतः समीक्षोपरांत, श्री राम को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान देने की तिथि दिनांक 22 मार्च, 2018 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है ।

5. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----